

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07-11-2022 जनपद देवरिया

यूपी-112 परियोजना के अंतर्गत संचालित फ्रेशर कोर्स के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को वितरित किया गया प्रमाण पत्रा

आज दिनांक 07/11/2022 को जिला प्रशिक्षण इकाई द्वारा यूपी-112 परियोजना के अंतर्गत संचालित 18 दिवस फ्रेशर प्रशिक्षण (दिनांक 14/10/2022 से 07/11/2022 तक) जनपद के डायल 112 में नियुक्त 21 पुलिस कर्मियों को फ्रेशर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उपनिरीक्षक 01, मुख्य आरक्षी 09, महिला मुख्य आरक्षी 02, एवं आरक्षी 09 ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। जिन्हें यूपी-112 में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों का परिचय, मानव मूल्य, sos, संचार तथा बातचीत कौशल, विवाद प्रबंधन हेतु तार्किक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, mdt की कार्यप्रणाली, gis, तथा poi, घटना के प्रकार, Atr तथा डिस्पोजिशन कोड, तनाव अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य एवं जीवन की प्रबंधन शैली, आपदा प्रबंधन, hrms, यातायात के नियम तथा प्रबंधन, अग्नि संबंधी मुद्दे, महिला संबंधी मुद्दे आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के उपरांत सफल प्रशिक्षणार्थियों को क्षेत्राधिकारी नगर श्री श्रीयश त्रिपाठी द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया तथा उनके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को उपरोक्त के संबंध में बतायी गयी बातों पर अमल करने तथा उनका सदुपयोग करने संबंधी आवश्यक आदेश- निर्देश दिए गए। तदुपरांत उक्त मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी गणों के साथ सूक्ष्म जलपान करते हुए उनके साथ पुलिस की अनुशासनात्मक कार्यप्रणाली तथा व्यवहारिक ज्ञान के संबंध में चर्चा की गई।

इस मौके पर प्रभारी जिला प्रशिक्षण इकाई डा0 शिवेन्द्र कुमार शर्मा, प्रतिसार निरीक्षक श्री पंकज कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटीयू श्री तेज जगन्नाथ सिंह, प्रभारी निरीक्षक यूपी0 112 श्री अनिल कुमार पाण्डेय व अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण मौजूद रहे।